

# Lev

## Chapter 5

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

יָדַע	אוּ	רָאָה	אוּ	גָּוַהַר	וְהוּא	אֲלֵהָ	קוֹל	וְשָׁמְעָהּ	תִּקְחֶנּוּ	כִּי-	וְנִפְשׁוּ	1
जानता	या	देखा	या	गवाह	और-वह	शाप-की	आवाज़	और-सुने	पाप-करे	जब	और-प्राण	
<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H7200</a>		<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0423</a>		<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H2398</a>		<a href="#">H5315</a>	
								עֲוֹנוֹ:	וְנִשָּׂא	וַיִּדַּר	לֹא	אִם-
								अपराध-अपना	और-उठाए	बताए	नहीं	यदि
								<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H3808</a>	

“यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है या सुना है, उसे नहीं बताता तो वह पाप करता है। उसे उसके अपराध के लिए अवश्य ही दण्ड भोगना होगा।

אוּ	טָמְאָהּ	חַיָּה	אוּ בְנֵי לַיָּשׁ	אוּ	טָמְאָהּ	דְּבַר	בְּכֹל-	תִּזְנַעַ	אֲשֶׁר	נִפְשׁוּ	אוּ	2
या	अशुद्ध	जानवर	लाश-में	या	अशुद्ध	चीज़	किसी-भी	छुए	जो	प्राण	या	
	<a href="#">H2931</a>		<a href="#">H5038</a>		<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H5315</a>		
טָמְאָהּ	וְהוּא	מִמֶּנּוּ	וְנִעְלָם	טָמְאָהּ	שָׂרָץ	בְּנֵי לַיָּשׁ	אוּ	טָמְאָהּ	בְּהֵמָה	בְּנֵי לַיָּשׁ		
अशुद्ध	और-वह	उस-से	और-छिपा-हो	अशुद्ध	रेंगने-वाले	लाश-में	या	अशुद्ध	पशु	लाश-में		
<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H8318</a>	<a href="#">H5038</a>		<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H5038</a>		
												וְאִשָּׁם:
												और-दोषी-हो
												<a href="#">H0816</a>

“अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो अशुद्ध है जैसे अशुद्ध जंगली जानवर का शव या अशुद्ध मवेशी का शव अथवा रेंगने वाले किसी अशुद्ध जन्तु का शव और उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता कि उसने उन चीजों को छुआ है, तो भी वह बुरा करने का दोषी होगा।

בָּהּ	יִטְמָא	אֲשֶׁר	טָמְאָתָּהּ	לְכֹל	אֲדָם	בְּטָמְאָתָּהּ	יִנְעַ	כִּי	אוּ	3
उस-से	अशुद्ध-हो	जिस-से	अशुद्धता-उसकी	सब-के-लिए	मनुष्य-की	अशुद्धता-में	छुए	जब	या	
			<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H5060</a>			
										וְאִשָּׁם:
										और-दोषी-हो
										<a href="#">H0816</a>
										<a href="#">H3045</a>
										<a href="#">H1931</a>
										<a href="#">H5956</a>

“किसी भी व्यक्ति से बहुत सी ऐसी चीजें निकलती हैं जो शुद्ध नहीं होती। कोई व्यक्ति इनमें से दूसरे व्यक्ति की किसी भी अशुद्ध वस्तु को अनजाने में ही छू लेता है तब वह दोषी होगा।

לְכֹל	לְהִיטִיב	אוּ	לְהַרְעֵהּ	בְּשִׁפְתָּיִם	לְבֹטֵא	תִּשְׁבַּעַ	כִּי	נִפְשׁוּ	אוּ	4
सब-के-लिए	भलाई-करने	या	बुराई-करने	होंठों-से	बोलने-को	कसम-खाए	जब	प्राण	या	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3190</a>			<a href="#">H8193</a>	<a href="#">H0981</a>	<a href="#">H7650</a>		<a href="#">H5315</a>		
										וְאִשָּׁם:
										और-दोषी-हो
										<a href="#">H0816</a>
										<a href="#">H3045</a>
										<a href="#">H1931</a>
										<a href="#">H5956</a>
										<a href="#">H7621</a>
										<a href="#">H0120</a>
										<a href="#">H0981</a>

“अथवा ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करने का जल्दी में वचन दे देता है। लोग बहुत प्रकार के वचन जल्दी में वचन दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा वचन दे देता है और उसे भूल जाता है तो वह अपराधी है और जब उसे अपना वचन याद आता है तब भी वह अपराधी है।

עֲלֵיָהּ:	טָמְאָהּ	אֲשֶׁר	וְהִתְנַדָּהּ	מֵאֵלָהּ	לְאֶחָת	יִאָּשָׁם	כִּי-	וְהִיא	5
उस-पर	पाप-किया	जो	और-अंगीकार-करे	इन-में-से	एक-के-लिए	दोषी-हो	जब	और-हो	
	<a href="#">H2398</a>		<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0816</a>		<a href="#">H1961</a>	

अतः यदि वह इनमें से किसी का दोषी है तो उसे अपनी बुराई स्वीकार करनी चाहिए।

6 וְהָבִיא אֶת-אֲשָׁמוֹ לַיהוָה עַל-חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר נָקְבָה מִן-מֶלֶךְ  
 और-लाए को दोषबलि-अपनी पर यहोवा-को पाप-अपने जो पाप-किया मादा  
[H0853](#) [H0935](#) [H3068](#) [H0817](#) [H5347](#) [H2398](#)

הַזָּאֵן בְּשֵׁבֶה אֹז-שְׂעִירַת עֵיזִים לְחַטָּאת עֲלָיו וְכִפֹּר הַכֹּהֵן  
 भेड़-बकरियों भेड़ी या बकरी बकरियों-की कबूतर-के पापबलि-के-लिए उस-पर और-प्रायश्चित-करे याजक  
[H3776](#) [H6629](#) [H5795](#) [H8166](#) [H3548](#)

מִחַטָּאתוֹ :  
 पाप-अपने-से

उसे परमेश्वर को अनपे किए हुए पाप के लिए दोषबलि लानी चाहिए। उसे दोषबलि के रूप में अपनी रेवड़ से एक मादा जानवर लाना चाहिए। यह मेमना या बकरी हो सकता है। तब याजक वह कार्य करेगा जिससे उस व्यक्ति के पाप का भुगतान होगा।

7 וְאִם-לֹא תִנְיַע יָדוֹ הָיָה יָדוֹ יָרָא וְהָבִיא אֶת-אֲשָׁמוֹ אֲשֶׁר חָטָא  
 और-यदि नहीं पहुँचे हाथ-अपना पर्याप्त भेड़ जो दोषबलि-अपनी पाप-किया  
[H5060](#) [H3808](#) [H3027](#) [H1767](#) [H7716](#) [H0935](#) [H0853](#) [H0817](#) [H2398](#)

שְׁתֵּי תְרִים אֹז-שְׁנֵי בְנֵי-יֹונָה לַיהוָה אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה:  
 दो पंडुक या दो बच्चे कबूतर-के यहोवा-को एक पापबलि-के-लिए और-एक होमबलि-के-लिए  
[H8449](#) [H8147](#) [H8147](#) [H3123](#) [H3068](#) [H0259](#) [H0259](#) [H0259](#)

“यदि कोई व्यक्ति मेमना भेंट करने में असमर्थ है तो उसे दो फ़ाख्ता या कबूतर के दो बच्चे यहोवा को भेंट में देना चाहिए। यह उसके पाप के लिए दोषबलि होगी। एक पक्षी दोषबलि के लिए होना चाहिए तथा दूसरा होमबलि के लिए होना चाहिए।

8 וְהָבִיא אֹתָם אֶל-הַכֹּהֵן וְהִקְרִיב אֶת-אֲשֶׁר לְחַטָּאת רִאשֹׁנָה וּמִלֶּקֶד אֶת-  
 और-लाए उन्हें पर याजक और-चढ़ाए को जो पापबलि-के-लिए पहले और-मरोड़े को  
[H0935](#) [H0853](#) [H0413](#) [H3548](#) [H7126](#) [H0853](#) [H4454](#) [H2723](#)

רִאשׁוֹ מִמּוֹלָה עֶרְפוֹ וְלֹא יִבְרִיל:  
 सिर-उसके सामने-से गर्दन-उसकी और-नहीं अलग-करे  
[H4136](#) [H6203](#) [H3808](#) [H0914](#)

उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उन पक्षियों को याजक के पास लाए। पहले याजक को दोषबलि के रूप में एक पक्षी को चढ़ाना चाहिए। याजक पक्षी की गर्दन को मोड़ देगा। किन्तु याजक पक्षी को दो भागों में नहीं बाँटेगा।

9 וְהָיָה מִדָּם הַחַטָּאת עַל-קִיר הַמִּזְבֵּחַ וְהַנֶּשֶׂאָר בְּדָם יִמָּצָה אֶל-יָסוֹד  
 और-छिड़के और-से कुछ-के पापबलि-के पर दीवार वेदी-की और-बचा-हुआ लहू-में निचोड़ा-जाए पर आधार  
[H1818](#) [H7604](#) [H4196](#) [H7023](#) [H1818](#) [H4680](#) [H0413](#) [H3247](#)

הַמִּזְבֵּחַ חַטָּאת הוּא:  
 वेदी-के पापबलि यह  
[H4196](#) [H1931](#)

तब याजक को दोषबलि के खून को वेदी के सिरो पर डालना चाहिए। तब याजक को बचा हुआ खून वेदी की नींव पर डालना चाहिए। यह दोषबलि है।

10 וְאֵת-הַשְּׂנֵי יַעֲשֶׂה עֹלָה כַּמִּשְׁפָּט עֲלָיו וְכִפֹּר עֲלָיו הַכֹּהֵן מִחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר-  
 और-को और-दूसरे बनाए होमबलि नियम-के-अनुसार उस-पर और-प्रायश्चित-करे याजक उस-पर जो पाप-अपने-से  
[H8145](#) [H0853](#) [H4941](#) [H3548](#)

חַטָּא וְנִסְלַח לוֹ: וְאֵת-  
 पाप-किया और-क्षमा-ही उसे  
[H5545](#) [H2398](#)

तब याजक को नियम के अनुसार होमबलि के रूप में दूसरे पक्षी की भेंट चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के अपराधों का भुगतान देगा। और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा।

11 ואם- לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני- יונה והביא  
 और-यदि नहीं पहुँचे हाथ-अपना दो-के-लिए दो-के-लिए कबूतर-के बच्चों और-लाए  
[H0935](#) [H3123](#) [H8147](#) [H8449](#) [H8147](#) [H3027](#) [H5381](#) [H3808](#)

את- קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לא- ישים עליה  
 को भेंट-अपनी जो पाप-किया दसवां एपाह-का मैदा पापबलि-के-लिए नहीं डाले उस-पर  
[H3808](#) [H5560](#) [H0374](#) [H6224](#) [H2398](#) [H0853](#)

שמן- ולא- יתן עליה לבנה כי חטאת היא:  
 तेल और-नहीं दे उस-पर लोबान क्योंकि पापबलि यह  
[H1931](#) [H3828](#) [H5414](#) [H3808](#) [H8081](#)

“यदि कोई व्यक्ति दो फाख्ता या दो कबूतर भेंट चढ़ाने में असमर्थ हो तो उसे एपा का दसवाँ भाग महीन आटा लाना चाहिए। यह उसकी दोषबलि होगी। उस व्यक्ति को आटे पर तेल नहीं डालना चाहिए। उसे इस पर लोबान नहीं रखना चाहिए क्यों यह दोषबलि है।

12 והביאה- אל- חכהן וקמן והכהן יאזקתה את- קמזו מלוא ממנה הכהן  
 और-लाए-उसे पर याजक और-मुट्टी-भरे याजक और-मुट्टी-भरे को मुट्टी-अपनी भरी उस-में-से याजक स्मरण-अंश-उसका  
[H0234](#) [H0853](#) [H7062](#) [H4393](#) [H3548](#) [H7061](#) [H3548](#) [H0413](#) [H0935](#)

והקטיר- המזבח- על- אש- יהוה חטאת הוא:  
 और-जलाए वेदी-पर पर अग्निबलियों की यहोवा-की पापबलि यह  
[H1931](#) [H3068](#) [H0801](#) [H4196](#)

व्यक्ति को आटा याजक के पास लाना चाहिए। याजक इसमें से मुट्टी भर आटा निकालेगा। यह स्मृति भेंट होगी। याजक यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट पर वेदी के ऊपर आटे को जलाएगा। यह दोषबलि है।

13 ונסלה- וקפר- עליו חכהן- על- חטאתו אשר- חטא מאחת- מאלה- ונסלה-  
 और-क्षमा-हो और-प्रायश्चित-करे उस-पर याजक पर पाप-अपने-से जो पाप-किया एक-से इन-में-से और-क्षमा-हो  
[H5545](#) [H0428](#) [H0259](#) [H2398](#) [H3548](#)

לו- ויהיה- לכהן- כמנחה- :  
 उसे और-हो याजक-के-लिए जैसे-अन्नबलि  
[H4503](#) [H3548](#) [H1961](#)

इस प्रकार याजक व्यक्ति के अपराधों के लिए भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। बची हुई दोषबलि याजक की वैसे ही होगी जैसे अन्नबलि होती है।”

14 וידבר- יהוה- אל- משה- לאמר-:  
 और-बोला और-होवा से मूसा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

15 נפש- כי- תמעל- ומעל- זעל- וקטאת- בשננה- מקדשי- יהוה- והביא- את-  
 प्राण जब विश्वासघात-करे विश्वासघात-करे विश्वासघात और-पाप-करे और-पाप-करे भूल-से भूल-से पवित्र-वस्तुओं-से पवित्र-वस्तुओं-की यहोवा-की और-लाए को  
[H0853](#) [H0935](#) [H3068](#) [H6944](#) [H7684](#) [H2398](#) [H4604](#) [H4603](#) [H5315](#)

שמו- ליהוה- איל- תמים- מן- הגזא- בערכה- כסף- שקלים- בשקל-  
 दोषबलि-अपनी यहोवा-को मेट्टा निदोष में-से भेड़-बकरियों मूल्यांकन-तेरे-में चाँदी शेकेल शेकेल-में  
[H8255](#) [H8255](#) [H3701](#) [H6187](#) [H6629](#) [H8549](#) [H3068](#) [H0817](#)

ל-אש- : הקדש-  
 दोषबलि-के-लिए पवित्र-के  
[H0817](#) [H6944](#)

“कोई व्यक्ति यहोवा की पवित्र वस्तुओं के प्रति अकस्मात् कोई गलती कर सकता है। तो उस व्यक्ति को एक दोष रहित मेट्टा लाना चाहिए। यह मेट्टा यहोवा के लिए उसकी दोषबलि होगी। तुम्हें उस मेट्टे का मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत मानक का प्रयोग करना चाहिए।

16 וְאֵת אֲשֶׁר קָטַף מִן־הַקֶּדֶשׁ יִשְׂלַם וְאֶת־חֲטָאָתוֹ וְנָתַן אֹתוֹ  
 उसे और-दे उस-पर जोड़े पाँचवाँ-उसका और-को चुकाए पवित्र में-से पाप-किया जो और-को  
[H0853](#) [H5414](#) [H3254](#) [H2549](#) [H0853](#) [H6944](#) [H2398](#) [H0853](#)

לְכַתּוֹב לְכַתּוֹב וְהִכְהִין וְכִפֶּר עָלָיו בְּאֵיל הָאֲשָׁם וְנִסְלַח לוֹ: פ  
 याजक-को याजक-को और-याजक प्रायश्चित-करे उस-पर मंढे-से दोषबलि-के और-क्षमा-हो उसे —  
[H3548](#) [H3548](#) [H5545](#) [H0817](#)

उस व्यक्ति को पवित्र चीजों के विपरीत किये गये पाप के लिए भुगतान अवश्य करना चाहिए। जिन चीजों का उसने वायदा किया है, वे अवश्य देनी चाहिए। उसे मूल्य में पाँचवाँ भाग जोड़ना चाहिए। उसे यह धन याजक को देना चाहिए। इस प्रकार याजक दोषबलि के मंढे द्वारा उस व्यक्ति के पाप को धोएगा और यहोवा उसके पाप को क्षमा करेगा।

17 וְאִם־נִפְשׁוֹ כִּי תִחַטָּא וְעָשְׂתָהּ אֶחָת מִכָּל־מִצְוֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תַעֲשִׂנָהּ  
 और-यदि प्राण पाप-करे जब और-करे एक किसी-से एक और-करे पाप-करे  
[H5315](#) [H2398](#) [H0259](#) [H3605](#) [H4687](#) [H3068](#) [H3808](#)

וְלֹא־יָדַע וְאֲשָׁם וְנִשְׂאָ עוֹנֵוֹ: יְדַע וְאֲשָׁם  
 और-नहीं जाने और-दोषी-हो और-उठाए अपराध-अपना  
[H3808](#) [H3045](#) [H0816](#) [H5375](#) [H5771](#)

“यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और जिन चीजों को न करने का आदेश यहोवा ने दिया है। उन्हें करता हो इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह इसे नहीं जानता। वह व्यक्ति अपराधी है और उसे अपने पाप का फल भोगना होगा।

18 וְהִבִּיא אֵיל תְּמִים מִן־הַצֹּאֵן בְּעֶרְכָּךְ לְאֲשָׁם אֶל־הַכֹּהֵן  
 और-लाए और-लाए मंढा निर्दोष में-से भेड़-बकरियों मूल्यांकन-तेरे-में दोषबलि-के-लिए पर याजक  
[H0935](#) [H8549](#) [H6629](#) [H6187](#) [H0817](#) [H0413](#) [H3548](#)

וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל שִׁנְתוֹ אֲשֶׁר־שָׁגָג וְהוּא לֹא־יָדַע  
 और-प्रायश्चित-करे उस-पर याजक पर भूल-अपनी-से जो और-वह भूला और-वह नहीं जानता-था  
[H3548](#) [H7684](#) [H1931](#) [H7683](#) [H3808](#) [H3045](#)

וְנִסְלַח לוֹ: וְאֵת  
 और-क्षमा-हो उसे  
[H5545](#)

उस व्यक्ति को एक निर्दोष मंढा अपनी रेवड़ से याजक के पास लाना चाहिए। मंढा दोषबलि होगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के उस पाप का भुगतान करेगा जिसे उसने अनजाने में किया। यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा।

19 אֲשָׁם הוּא אֲשָׁם אֲשָׁם לִיהוָה: פ  
 दोषबलि यह दोषी दोषी-हुआ दोषी-के-प्रति यहोवा-के-प्रति —  
[H0817](#) [H1931](#) [H0816](#) [H0816](#) [H3068](#)

व्यक्ति अपराधी हो चाहे वह यह न जानता हो कि वह पाप कर रहा है। इसलिए उसे यहोवा को दोषबलि देना होगी।”